

04 मई: अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस (आईएफएफडी) 4 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस (आईएफएफडी) एक ऐसा समय है जहां दुनिया का समुदाय उन बलिदानों को पहचान और सम्मान कर सकता है जो अग्निशामक यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि उनके समुदाय और पर्यावरण जितना संभव हो उतना सुरक्षित हो।

राज्यसमाचार

पंजाब और हरियाणा

ए.के. मित्तल बने मुख्य न्यायाधीश

- न्यायाधीश एके मित्तल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश वजीफादार की सेवानिवृत्ति के कारण न्यायमूर्ति मित्तल, जो उच्च न्यायालय के पहले शीर्ष न्यायाधीश हैं, की नियुक्ति केंद्र द्वारा अधिसूचित की गयी है।

राष्ट्रीयसमाचार

नमामि गंगे कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गंगा कायाकल्प कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से 1767 में गठित भारत के सबसे पुराने विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग

को अपने साथ जोड़ा है। इस परियोजना को कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूर किया गया था और इसकी अनुमानित लागत 86.84 करोड़ रुपये है।

- एनएमसीजी का लक्ष्य राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण तथा इसका कार्यान्वयन है। परियोजना में डिजीटल इलिवेशन मॉडल (डीईएम) प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है जो सटीक आंकड़ा संग्रह सुनिश्चित करता है। यह नदी-बेसिन प्रबंधन योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।

रेल मंत्रालय ने स्टेशन परिसरों के सौन्दर्यीकरण के लिए पुरस्कारों की घोषणा की

- सृजनात्मकता के साथ स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने सौन्दर्यीकृत किये गये स्टेशनों के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे से नामांकन आमंत्रित किया था।
- 62 प्रविष्टियों में से बल्हारशाह तथा चन्द्रपुर (मध्य रेलवे) को प्रथम पुरस्कार, मधुबनी (पूर्व मध्य रेलवे) तथा मदुरै (दक्षिण रेलवे) को दूसरा पुरस्कार तथा गांधी धाम (पश्चिम रेलवे) कोटा (पश्चिम मध्य रेलवे) को सिकंदराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) के साथ तीसरा पुरस्कार मिला।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वयं के माध्यम से 75 राष्ट्रीय संसाधन केन्द्रों (एनआरसी) को अधिसूचित किया

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एमओओसी प्लेटफॉर्म 'स्वयं' का उपयोग करते हुए 1.5 मिलियन उच्च/शिक्षा फैकल्टी के ऑनलाइन पेशेवर विकास का बड़ा और अनूठा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पहले चरण में 75 अध्ययन-विषय विशेष राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र चिन्हित किये गये हैं। इन केन्द्रों से अध्ययन-विषय विशेष में नवीनतम विकास, उभरती प्रवृत्तियों, शैक्षणिक सुधार और संशोधित पाठ्यक्रम

लागू करने के लिए तौर-तरीकों पर फोकस के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने को कहा गया है।

राष्ट्रीय संग्रहालय में भारतीय संस्कृति के आधार पर एक विस्तृत प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था।

- केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डा. महेश शर्मा कल नई दिल्ली में “भारत तथा विश्व: नौ कहानियों में इतिहास” विषय पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय (सीएसएमवीएस) मुम्बई के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है।

रक्षा योजना समिति की पहली बैठक

- नई रक्षा योजना समिति (डी.पी.सी.) ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में पहली बैठक की। डी.पी.सी. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एन.एस.एस.) और अन्य सिद्धांतों के गठन के साथ-साथ देश के उच्च रक्षा प्रबंधन और योजना में सुधार करेगा।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

निया का सबसे व्यस्त हवाई मार्ग: सिंगापुर-क्वालालंपुर

- ब्रिटेन की एयर ट्रेवल इंटेलिजेंस कंपनी ओएजी के एक अध्ययन के अनुसार सिंगापुर और कुआलालम्पुर के बीच का मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई मार्ग है। कुआलालम्पुर और सिंगापुर के बीच फरवरी के अंत तक कुल 30,500 उड़ानें दर्ज की गईं।

विज्ञान समाचार

मंगल पर भूकंप की तीव्रता जांचेगा रोबॉट

- इनसाइट एयरक्राफ्ट पहली बार मंगल की 'नब्ज' भी जांचेगा। यहां आने वाले भूकंपों को भी नापा जाएगा। अनुमान है कि ठंडा होने और सिकुड़ने की वजह से मंगल ग्रह पर क्रैक 6 और 7 की तीव्रता के भूकंप पैदा होते हैं। मंगल के रोटेशन को ट्रैक कर इस विशाल ग्रह के आकार और इसके कोरों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।

आर्थिक समाचार

विश्व बैंक: भारत ने विद्युतीकरण के क्षेत्र में शानदार काम कर रहा है

- विश्व बैंक ने कहा है कि भारत ने विद्युतीकरण के क्षेत्र में 'बहुत अच्छा' काम किया है और देश की 80 प्रतिशत आबादी तक बिजली पहुंच गयी है। विश्व बैंक की इस सप्ताह जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 से 2016 के मध्य भारत ने प्रतिवर्ष तीन करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध करायी।

अब पेंशनभोगी देख सकेंगे अपनी पासबुक उमंग एप के जरिये

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनभोगियों के लिये विशेष सेवा शुरू किये जाने की घोषणा की है। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार पेंशनभोगी पेंशन पासबुक उमंग एप के जरिये देख सकेंगे। ईपीएफओ इस साल अगस्त से कागज रहित हो रहा है और सभी सेवाएं आनलाइन होंगी।

खेल समाचार**मैरी पियर्स ने टीसीएस वर्ल्ड 10 मैराथन के एम्बेसडर**

- पूर्व टेनिस स्टार मैरी पियर्स को टी.सी.एस. वर्ल्ड 10K 2018 मैराथन के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। मैराथन का आयोजन 27 मई को बेंगलुरु में होना है।